

02/09/2021

Department of Corporate Services/ Listing, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001

Co. Name: Trinity League India Limited

Code No.: 531846

Sub: Newspaper Publication of Notice of 33rd Annual General Meeting of the Company.

Dear Sir,

Please find enclosed herewith newspaper publication(s) of Notice of Annual General Meeting published in the News Paper - Financial Express and Jansatta dated 02.09.2021.

Yours faithfully

For Trinity League India Limited

Piyush Kumar Srivastava

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above

TRINITY LEAGUE INDIA LTD.

Regd. Office: A 23, Mandakini Enclave, Alaknanda, GK-II, New Delhi-110019 Corporate Office: "Trinity Tower", B-2, Sector-7, Noida 201301 (U.P.), Ph: 0120-4712800, 4712802, - Email: trinityleague@trinitygroup.ind.in

Website: www. trinitygroup.ind.in CIN NO. L93000DL1988PLC031953

FINANCIAL EXPRESS

WESTERN RAILWAY-VADODARA DIVISION

"Opportunity of Branding on **Electric Locomotives**"

Vadodara Division of Western Railway is pleased to introduce its novel concept of branding on Electric locomotives. With its vast reach across the length and breadth of the country, Indian Railways is known as "The Lifeline of The Nation". More than 20 million passengers travelling daily on the Railway's network provides immense opportunity for promoting brands across the nation. The idea already proved as a game changer for the famous brands like "AMUL" & "FORTUNE - ADANI" promoting their brands since years with minimal investment. Grab this opportunity and help to grow your brands nation wide. For Further details please contact: Sr. Divisional Commercial Manager, Divisional Railway Manager's Office, Commercial Department, Ground Floor, Pratapnagar, Vadodara-390004. Contact No : 9724091973. E Mail: dcmi.publicity.brc@gmail.com

Like us on:

facebook.com/WesternRly • Follow us on:

twitter.com/WesternRly



CIN: L15494RJ1992PLC016617 Regd Office: SP- 916, Phase-III, Industrial Area, Distt. Alwar, Bhiwadi 301 019, Rajasthan Ph. No. 911-6176727, 911-6128880

AJANTA SOYA LIMITED

Corp. Office: 12th Floor, Bigio's Tower, A-8, Netaii Subhash Place. Wazirpur District Centre, Delhi-110 034: Ph. No. 91-11-42515151, Fax: 91-11-42515100

Website: www.ajantasoya.com, E-mail: cs@ajantasoya.com INFORMATION REGARDING 30" ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD

THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) Notice is hereby given that the 30" Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 30th September, 2021 at 2:00 P.M. through Video Conferencing (VC)/ Other

Audio-Visual Means (OAVM) facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circulars dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020 and 13th January 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circulars dated 12th May 2020 and 15th January 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), without the physical presence of Members at a common venue. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM facility only. Members participating through the VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circular, the Notice of AGM and the Annual Report 2020-2 including the financial statements for the financial year 2020-21, along with Directors' Report Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent only by email to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depositary Participant(s). The aforesaid documents will also be made available on the website of the Company i.e. www.ajantasoya.com and the websites of the stock exchanges where the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com as well as or the website of National Securities Depository Limited i.e. www.evoting.nsdl.com.

Manner of casting vote(s) through E-voting:

- a. Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ('e-voting').
- **b.** The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses will be provided in the Notice of the AGM.
- c. The facility for e-voting will also be made available at AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the
- **d.** The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to
- e. The same login credential may also be used for attending the AGM through VC/OAVM

Manner of registering/updating email addresses:

In case you have not registered your e-mail address with the Company/ Depository, please follow below instructions for obtaining the Annual Report and login-in details for joining the AGM/ exercising e-voting facility:

- a. Physical holding: please send scan copy of a signed request letter mentioning your Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back) PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card), by email to the Company's email address at cs@ajantasoya.com or to the email id of Skyline Financial Services Pvt Ltd-Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company at **compliances@skylinerta.com**. b. Demat holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your e
- mail address in your demat account, as per the process advised by your DP.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and i particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting o through e-voting during the AGM.

For Ajanta Soya Limited

Date: 1st September, 2021

Company Secretary



Place: New Delhi

SEASONS TEXTILES LIMITED CIN - L18101DL1986PLC024058

Regd. Off: 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - III, New Delhi -110 024 Phone: 0120-4690000, Fax: 0120-4351485

Website: www.seasonsworld.com, E mail: cs.stl@seasonsworld.com NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE . NOTICE is hereby given that the 35th (Thirty Fifth) Annual General Meeting (AGM) of SEASONS TEXTILES LIMITED will be held on Tuesday, 28th September 2021 at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) for which purpose the Registered Office of the Company situated at 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - III, New Delhi -110 024 shall be deemed as the venue for the Meeting and the proceedings of the 35th (Thirty Fifth) Annual General Meeting shall be deemed to be made thereat.

In view of the COVID-19 pandemic and the need for ensuring social distancing, the Government of India, Ministry of Corporate Affairs ("MCA") allowed conducting Annual General Meeting through video conferencing (VC) or other audio-visual means (OAVM) without the physical presence of Members at a common venue. Accordingly, MCA issued Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 ("MCA Circulars"), prescribing the procedures and manner of conducting the Annual General Meeting through VC/ OAVM. MCA vide its Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 extended the time line for holding of Annual General Meetings through VC/OAVM till December 31, 2021. Securities and Exchange Board of India ("SEBI") also vide its Circular dated May 12, 2020, permitted holding of Annual General Meetings through VC/OAVM which was further extended by its circular dated January 15, 2021 ("SEBI Circulars") till December 31, 2021. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, MCA Circulars and applicable provisions of the SEBI Circulars, the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Members will be held through VC/ OAVM. Hence,

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. Further, electronic copies of the Annual Report of the Company, for the financial year 2020-2021, which comprises of Notice for calling the 35"AGM, Directors' Report, Audited Standalone Financial Statements, Audited Consolidated Financial Statements and Auditors Reports thereon, have been sent on 31"August 2021, to all the Members whose Email IDs are registered with the Company/Depository Participants/MCS Share Transfer Agent Limited ("Registrar & Transfer Agent"). It is also available on the Company's website, www.seasonsworld.com, website of Central Depository Services Limited (CDSL), www.evotingindia.com and website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com.

. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, i.e., 22-09-2021, may cast their vote electronically on the businesses as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of CDSL ("Remote e-Voting"). All the Members are hereby informed that:

 The voting period begins on 25-09-2021 at 10:00 A.M. and ends on 27-09-2021 at 5:00 P.M. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 22-09-2021 cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the

company after circulation of the Notice of AGM and holding shares as on Cut-off Date, i.e., 22-09-2021, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.comor call 022-23058542/43However, if a person is already registered with CDSL for e-Voting then the existing user ID and password can be used for casting the vote; Members may note that:

a) the Remote e-Voting module shall be disabled by CDSL after 5:00 PM on 27-09-2021. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;

the facility for voting electronically will be made available during the AGM;

 the Members who have cast their vote by Remote e-Voting prior to the AGM, may also attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again; and

d) a person those name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the Cut-off Date only shall be entitled to avail the facility of Remote e-Voting or e-Voting at the AGM. 8. The detailed procedure and instructions for Remote e-Voting and e-Voting during the

AGM are given in the Notice of the AGM. Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 and Rule Made thereunder the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from will remain closed from 23-09-2021 to 28-09-2021 (both days inclusive).

e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43. 11. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services

(India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. The results shall be declared not later than forty-eight hours from conclusion of the

Meeting. The results declared along with Scrutinizers Report will be placed on the website of the Company at www.seasonsworld.com/mmediately after the results are declared and will simultaneously be forwarded to BSE Limited, where the equity shares of the Company are listed and shall be displayed at the Registered Office as well at the Corporate Office of the Company.

By order of the Board of Directors For Seasons Textiles Limited Saurabh Arora

(CIN: L74899DL1989PLC036148) Regd. Off.: 409, 4th Floor, DLF Tower-A, Jasola, New Delhi – 110025 Ph: 011-40500300, 011-43058345, fax: 011-40500333 Email: info@blkashyap.com; Website: www.blkashyap.com INFORMATION REGARDING 32nd ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that 32nd Annual General Meeting (AGM) of B.L. Kashyap and Sons Limited ("the Company) is scheduled to be held on Thursday, September 30, 2021 through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) without physical presence of the members in compliance with General Circulars No. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020 and 02/2021 dated 13th January, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs ("Collectively referred to as the MCA Circular") and Circular dated 12th May, 2020 read with circular dated 15th January 2021 issued by Securities and Exchange Board of India ("Collectively referred

The Annual Report of the Company for the Financial Year 2020-21 which, inter-alia, contains the Notice of the AGM giving instructions for attending the meeting through VC/ OAVM and for e-voting, will be sent only in the electronic mode to those Members who have registered their e-mail addresses with their respective Depository Participants ('DPs') or the Company or its Registrar & Share Transfer Agents ('RTA') viz., Link Intime India Pvt. Ltd.

Members who have not vet registered their email addresses with the Company/ RTA/ DP are requested to follow the process mentioned below for registering their email addresses to receive Notice of the AGM and Annual Report electronically and to receive login ID and password for e-Voting:

a) For the shareholders holding shares in Physical Mode - Provide Folio No., Name of shareholder, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company at cs@blkashyap.com or register their email / Bank details through the link viz. https://www.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html

For shareholders holding shares in Demat Mode - Please contact your DepositoryParticipant (DP) and register your email address and bank account details as per process advise by your DP or register their email / Bank details through the link viz. https://www.linkintime.co.in/EmailReg/Email Register.html

The Notice of AGM along with Annual Report for FY 2020-21 of the Company will also be

available on the website of the Company at www.blkashyap.com and on the website of RTA at https://instavote.linkintime.co.in. Additionally, the Notice of AGM and the Annual Report will be made available on the website of the stock exchange i.e. at www.nseindia.com and www.bseindia.com. Members can attend and participate in the AGM only through the VC/OAVM facility, the

details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. Accordingly, please note that no provision has been made for attending and participating in the 32nd AGM in person to ensure compliance with the directives issued by the government authorities with respect to COVID-19. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Company is pleased to provide remote evoting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company shall also provide the facility of voting through remote e-voting system during the Meeting. Detailed procedure for remote e-voting before the AGM / remote e-voting during the AGM will be provided in the Notice of AGM. For B.L. KASHYAP AND SONS LIMITED

Date: 01st September, 2021 Place: New Delhi

AGM

to as the SEBI Circulars").

PUSHPAK KUMAR COMPANY SECRETARY

WE BUILD YOUR WORLD

VIKALP SECURITIES LIMITED Read, Office: 25/38, KARACHI KHANA, KANPUR, UTTAR PRADESH - 208001

CIN-L65993UP1986PLC007727, Contact No: 0512-2372665 Email id: vikalpsecuritieslimited@gmail.com Website: www.vikalpsecurities.com NOTICE OF 35[™] ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that 35th Annual General Meeting

("AGM") of the members of VIKALP SECURITIES LIMITED (the "Company") is scheduled to be held on Friday, 24th of September, 2021 at 11:00 A.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OVAM) to transact the businesses as set out in the notice of the meeting which will be sent to individual members of the Company along with the statement of material facts pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013. Notice of AGM can also be accessed from the website of the Company i.e. www.vikalpsecurities.com.

In view of spread of Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its General Circular No.14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 33/3030 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 and General Circular No.02/2021 dated January 13, 2021 Circulars') and Circular SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars') (collectively referred as 'Circular") have permitted holding of AGM through VC/OAVM. In compliance of above Circulars the 35th AGM of the Company will be held through VC/OVAM only without physical presence of the members at the venue. A detailed instruction for joining the AGM through VC is given in the notice of the

https://vikalpsecurities.com/?page_id=41 In compliance of the above Notice calling the AGM has been send to all the shareholders of the Company through email at their registered email address. Notice of AGM has also been uploaded on the website of the Company at www.vikalpsecurities.com. The notice can also be accessed from the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com.

Further, pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Businesses as set out in the Notice will be transacted by electronic voting and the Company is pleased to provide remote e-voting facility to all the shareholders. The details, in this regard, are given herein

- 1. Date and time of Commencement of remote e-voting period: 21st September, 2021 (9:00 A.M.)
- 2. Date and time of close of remote e-voting period: 23rd September, 2021 (5:00 P.M.)
- 3. Remote E-Voting through electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 P.M on 23rd September, 2021.
- 4. The cut off date for the entitlement of the e-voting is 14th September, 2021. A person whose name is recorded in the register of members and in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut off date shall be entitled to the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.
- after the dispatch of notice but before the cut off date may obtain their user id and password for remote e-voting from the Company's Registrar and share Transfer Agent (RTA) or NSDL. The facility for voting, through electronic voting system shall

Any member of the Company who has become the member

- also be made available at the meeting and members attending the meeting who have not already casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. A member may participate in the General Meeting through
- VC even after exercising his right to vote through e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. 8. In case of any queries, you may refer to the Frequently
- Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.

For Vikalp Securities Limited

Arun Kejriwal Managing Director DIN: 00687890 SHARIKA ENTERPRISES LIMITED CIN: L51311DL1998PLC093690

Regd. Office: S-550-551, School Block Part-2, Welcome Plaza, Shakarpur, Delhi-110092, Corporate Office: B-124, Sector-67 Gautam Budh Nagar, Noida - 201301 UP,

Tel No: +91 120 2593900

Email: cs@sharikaindia.com, Website: www.sharikaindia.com Notice of 23rd Annual General Meeting of the Company and E-Voting Information

NOTICE is hereby given that the 23rd Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, September 28, 2021 at 01.00 p.m. through Video Conference [VC] / Other Audio Visual Means [OAVM]. In Compliance with General Circular numbers 20/2020, 14/2020, 17/2020, 20/ 2020, 39/2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular number SEBI/HO/ CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and Circular No. SEBI/HO/ CFD/C-MD2/CIR/P/2021/11 issued by the SEBI, Companies are allowed to hold AGM through VC/OAVM, without physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the Company is being held through VC/OAVM to transact the business set-forth in the Notice of AGM.

n accordance with the aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the explanatory statement pursuant to the provisions of section 102 of the Companies Act, 2013 will be sent only through electronic mode to all the members whose email addresses are registered with the Depositories. The Notice of the AGM will also be available on the website of the company www.sharikaindia.com and on the website of the stock exchange www.bseindia.com members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The Instruction for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Participation of members through VC/OAVM will be reckoned for the purpose of quorum for the AGM as per section 103 of the companies Act, 2013.

The company is providing remote e-voting facility to all its members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the company is providing the facility of

voting through e-voting systems during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting / e-voting will be provided in the Notice of the AGM.

- . The e-voting shall commence on Saturday, September 25, 2021 at 09:00 a.m.
- 2. The e-voting shall end on Monday, September 27, 2021 at 05.00 p.m. The cut-off date for entitlement of e-voting shall be Tuesday. September 21, 2021.
- The persons who have acquired shares after dispatched of notice may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com
- Remote e-voting shall not be allowed beyond end of e-voting period. n case of a member whose e-mail address is not registered / updated with the company /RTA

Depository Participants, please follow the following steps to register email address for obtaining

- AGM Notice of the Company and login details for e-voting: For Physical shareholders-please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder. scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to cs@sharikaindia.com /helpdesk.evoting@cdslindia.com
- For Demat shareholders -, Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository. The Notice of the AGM of the company will be sent to the shareholders holding shares as on cutoff date for the dispatch in accordance with the applicable laws on their registered email address in due course.

BY ORDER OF THE BOARD. SHARIKA ENTERPRISES LIMITED

Place: Noida Date: September 02, 2021

Managing Director AHLUWALIA CONTRACTS (INDIA) LIMITED (Corporate Id Number: L45101DL1979PLC009654)

Rajinder Kaul

New Delhi

Date: September 1, 2021

the Notice of the AGM only through e-voting facility.

Phase-I. New Delhi-110020 Website:- www.acilnet.com, E-mail:- cs.corpoffice@acilnet.com NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE

Regd. Office: Plot No. A-177, Okhla Industrial Area,

The Notice is hereby given that:

- The 42nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, the 24th day of September, 2021 at 3.00 p.m. hosted at A-177, Okhla Industrial Area Phase-1, New Delhi-110020, (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out 2. Notice of AGM and Annual Report for Financial Year 2020-21 has been sent to all the
- members whose name appeared in the Register of Members as on Friday, 27th August 2021 through electronic mode to the shareholders whose e-mail ids are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent (RTA) or with the Depository Participants in accordance with the General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020, and May 5, 2020 respectively (hereinafter collectively referred as ("MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA" and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The dispatch of the Notice of AGM and Annual Report through e-mail has been completed on or before 31st August, 2021; In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act. 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as
- amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. the shareholders holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on cut-off date of i.e. Friday, 17th September, 2021, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Link Intime India Pvt. Limited ("LIIPL") from a place other than venue of AGM ("Remote E-voting"). All the shareholders are informed that: - The remote e-Voting shall commence on Tuesday, 21st September, 2021 at
- The remote e-Voting shall end on Thursday, 23rd September, 2021 at 5:00 P.M. The remote e-Voting shall not be allowed beyond the above said date and time
- 4. Any person who acquires shares of the Company and becomes shareholder after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Friday, 17th September, 2021, may obtain the Login-Id and Password by sending a request to the Company/RTA: A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of
- September, 2021 shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well Shareholders may note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by LIIPL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently

b) the facility for voting through Ballot Paper shall be made available at the AGM; and

beneficial owners maintained by the Depositories as on cut-off date of i.e. Friday,17th

- c) the shareholders who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The Notice of AGM is available on the Company's website www.acilnet.com and
- also on the LIIPL's website www.linkintime.co.in: In case of gueries or grievances, shareholders may refer to the Frequently Askad Questions (FAQs) for members and e-Voting User Manual for members at www.instavote.linkintime.co.in under help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or call on number at 022-49186000. Shareholders may also write to the Company Secretary & Compliance Officer of the Company at cs.corpoffice@acilnet.com or at the Registered Office of the Company, address mentioned above for the grievances connected with facility for voting by electronic
- In terms of Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and as per the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 18th September, 2021 to Friday, 24th September, 2021 (both days inclusive) for Annual General Meeting.

For Ahluwalia Contracts (India) Ltd.

September 1, 2021

downloaded

(Vipin Kumar Tiwari) Company Secretary

M.K. EXIM (INDIA) LIMITED

Registered Office: G1/150, Garment Zone, E.P.I.P. RIICO Industrial Area, Sitapura, Sanganer, Jaipur -302022, Rajasthan Phone: 0141- 3937500, 3937501, Fax: +91-141-3937502 -mail: mkexim@mkexim.com, complianceofficer@mkexim.com Web-Site: www.mkexim.com

NOTICE OF AGM AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 29th AGM of members of the company wil be held on Wednesday, 29th September, 2021 at 11.00 A.M IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the ordinary and special business as mention in the notice together with explanatory statement under Section 102 of the Companies Act, 2013. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act 2013.

The shareholders are hereby informed that the company has sent the notice of the AGM and the standalone and consolidated financial statements for the financial year 2020-21, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attach thereto on 31.08.2021, to their registered e-mail address registered with the company or D.P. or R.T.A. as the case may be. The aforesaid documents are also available on the company's website at www.mkexim.com

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies Management and Administration Rules, 2014, the Register of Members and Shares Transfer Book of the company will

E-VOTING Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and read with rule 20 of the Companies Management and Administration Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 and SS-2 of General Meeting, the company is providing e-voting facility to its shareholders to cast their vote using an e-voting system in respect of all business to be transacted at the AGM through CDSL on all resolution set forth in the notice. Further

remain close from 23.09.2021 to 29.09.2021 (Both days inclusive).

a. The remote e-voting period commence on 26.09.2021 at 09.00 A.M. and end on 28.09.2021 at 5.00 P.M. thereafter the remote e-voting facility shall be disable by CDSL for voting. b. The cut-off date for the purpose of e-voting is on 22.09.2021.

c. The facility for e-voting during the meeting shall be made available to

shareholders are requested to take the note of the following-

only those shareholders whose name are recorded in register of member or in the register of beneficiary owner maintain by depositories as on the cut-off date i.e. 22.09.2021. Investors who became members of the Company after the dispatch of

the Notice and holds the shares as on the cut-off date i.e. 22.09.2021 are requested to send the written / email communication to the Company at beetalrta@gmail.com by mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID to obtain the Login-ID and Password for e-voting.

The Shareholders, who have cast their vote by e-voting prior to the meeting, may attend the meeting through VC but shall not be entitled to

cast their vote again at the meeting. g. For electronic voting instruction shareholder may go through the instruction in the notice of meeting.

Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer for the evoting process in a fare and transparent manner. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting

from the CDSL e-Voting System, you can write an email

For M.K.Exim (India) Limited

Prakriti Sethi Company Secretary and Compliance Officer COSMO FERRITES LIMITED CIN: L27106HP1985PLC006378

Regd. Off: P.O. Jabli, Distt. Solan, H.P.-173209 Tel: 01792-294347, Website: www.cosmoferrites.com E-mail: investorservices@cosmoferrites.com, NOTICE

- Shareholders may note that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held over Video Conference("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility on Tuesday, 28th September, 2021 at 3:00 P.M. IST, in compliance with General Circular No.14/2020,17/2020, 20/2020, 02/2021 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting.
- In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for financial year 2020-21 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). Manner of registering/updating email addresses:
- (i) The members of the Company holding equity shares of the Company in Physical and Demat Form and who have not registered their e-mail addresses may temporarily get their e-mail addresses registered with Alankit Assignments Limited by clicking the link: https://mailupd.alankit.com and follow the registration process as guided therein. The members are requested to provide details such as DPID, Client ID/Folio NO/ PAN, mobile number and e-mail id. In case of any query, a member may send an e-mail to Alankit at rta@alankit.com (ii) It is clarified that for permanent registration of email address, shareholders are
- requested to register their email addresses, in respect of electronic holdings with their concerned Depository Participants by following the procedure prescribed by the Depository Participant.
- The notice of the 35th AGM and Annual Report for financial year 2020-21 will also be made available on the Company's website at www.cosmoferrites.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of CDSL https://www.evotingindia.com.
- Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the shareholders.
- The 35th AGM Notice will be sent to the shareholders in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course.

For Cosmo Ferrites Limited

Aditya Sharma

Company Secretary & Compliance Officer

TRINITY LEAGUE INDIA LIMITED

Regd. Off.: A-23, Mandakini Enclave, Alaknanda, GK II, New Delhi-110019 Contact- 011-40562329, website: www.trinitygroup.ind.in

E-mail: trinityleague@trinitygroup.ind.in Notice of the 33" Annual General Meeting It is hereby informed that the Thirty Third Annual General Meeting (33" AGM) of Trinity League India Limited will be held on Monday the 27° day of September 2021 at 11.30 AM. Through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in

Act, 2013 and circulars dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020) issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12, 2020 and Circular No. 02/2021 dates January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs. The instructions for joining the AGM electronically are provided in the Notice of the AGM. Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 is being sent only through electronic

The AGM will be held only through VC / OAVM in compliance with the provisions of the Companies

node to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or CDSL/NSDL ("Depositories") and will also be available on the Company's website www.trinitygroup.ind.in and website of the Bombay Stock Exchange i.e. at www.bseindia.com . Members who have not registered their e-mail addresses and in consequence the Annual Report including Notice of AGM and e-voting instructions could not be serviced, may get their email

address and mobile number registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, by sending mail on nvestor@beetalfinancial.com for the same along with scanned copy of the signed request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in ase of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for obtaining the Annual Report, Notice of AGM and the e-voting instructions. The remote e-voting period will commence from 24th September, 2021 at 10:00 am and will end at 5.00 pm on 26th September, 2021. During this period the eligible shareholders of the Company. tolding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote electronically,

beyond 5:00 p.m. on September 26, 2021. Facility for e-voting shall also be made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not already cast their vote. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate n the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. he cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote e-voting and eoting at the AGM is Monday, September 20, 2021. Any person, who becomes a member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to investor@beetalfinancial.com to cast his/her vote. The

detailed procedure for obtaining the login ID and password and exercising e-voting is provided in

The e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter i.e. voting shall not be allowed

Members holding shares in electronic form are requested to intimate any change in their bank mandates to their Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts. The Company or its RTA cannot act on any request received directly from the Members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members. The Members holding shares in physical form are requested to advise any change in their bank mandate immediately to Beetal House, 3rd Floor 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir,

By Order of the Board of Directors,

Company Secretary

Place: New Delhi

Date: September 01, 2021

New Delhi- 110062.

For Trinity League India Limited Piyush Kumar Srivastava

BEETEL TELETECH LIMITED (Formerly known as Brightstar Telecommunications India Limited)

Regd. Office: First Floor, Plot No. 16, Udyog Vihar, Phase IV, Gurgaon – 122015, Haryana, India Corporate Identification Number: U32204HR1999PLC042204

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting ("AGM") of the members of Beete

Teletech Limited ("the Company") will be held on Thursday, 23° day of September, 2021 at 3:30

P.M. through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the

Ph. No.+91 124 4823500 and Fax No. +91 124 4146130 Website: www.beetel.in, Email: legal.secretarial@beetel.in NOTICE OF 22ND ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder read with Circular Nos.14/2020 (dated 8th April 2020), 17/2020 (dated 13th April 2020), 20/2020 (dated 5th May 2020) and 02/2021 (dated 13th January, 2021), respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs "MCA Circular(s)") without the physical presence of the Members at a common venue. Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report – 2020-2021 (for the financial year ended 31st March, 2021) of the Company have been sent to all the members whose email

IDs are registered with the Registrar & Transfer Agent of the Company or Depository Participant(s). The dispatch of Notice of AGM has been completed on 31st August 2021. Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular(s). The Notice of AGM and the Annual Report for 2020 -2021 are available on the website of the Company at www.beetel.in and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Members holding shares in physical mode and who have not updated their e-mail addresses with the Company are requested to update their e-mail addresses by sending email request at

admin@mcsregistrars.com and/ or legal.secretarial@beetel.in along with scanned copy of the

signed request letter mentioning the name and address of the Member, self-attested copy of

the PAN card and self-attested copy of any document (example: Aadhar, Driving License)

Election Identity Card, Passport). Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their e-mail addresses with the relevant Depository Participants. The Notice of the AGM contains the instructions regarding the manner, in which shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. After updation of email ID, members may obtain the USER ID and Password by sending a request at In accordance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and MCA Circular(s), the Company has availed the electronic voting services from National Securities Depository Limited ("NSDL")and the Company has

appointed Mr. Devesh Kumar Vasisht (CP No. 13700), Partner or failing him, Ms. Priyanka (CP No. 16187), Partner of M/s Sanjay Grover & Associates, Company Secretaries as the Scrutinizer for AGM to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner. All members are informed that: 1. the Ordinary and Special Business(es) as set out in the Notice of the AGM may be

transacted through voting by electronic means; 2. the remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting From Monday, 20th September 2021 at 9:00 A.M (IST) Upto Wednesday, 22nd September 2021 at 5:00 P.M. (IST End of remote e-voting members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Thursday,

16th September 2021 (the cut-off date), may cast their vote electronically on the Businesses

as set out in the Notice of the AGM. A person who is not holding shares/securities as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only. any person, who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Thursday, 16th September 2021 may obtain the USER ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is

already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing USER ID and Password for casting the votes. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL beyond 5:00 P.M. on 22nd

September 2021, the member shall not be allowed to change it subsequently;

b) in terms of MCA Circulars, members who attend the AGM will get facility of electronic voting at AGM through NSDL platform only (detailed manner of attending AGM through

c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Thursday, 16th September 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders

request to at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email id - pallavid@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.in or at telephone nos.:- +91 22 24994545, +91 22 24994559. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in

particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting during the AGM. For and on behalf of the Board of Directors

Beetel Teletech Limited

Neeraj Manchanda Company Secretary Membership No.: A20060

Date: 1st September, 2021

Place: Kanpur

Date: 01.09.2021 Place: Jaipur

022-23058542/43

helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and

Place: Gurugram

Date: 01.09.2021

Company Secretary financialexp.epap.in

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL

Place: New Delhi Dated: 01-09-2021

B I KASHYAP B. L. KASHYAP AND SONS LIMITED

3

. Those shareholders who have not casted their vote electronically may cast their vote during the Annual General Meeting through VC.

.Ms. Anshu Parikh of M/s. Anshu Parikh & Associates, Practicing

New Delhi

VC has been mentioned in the notes of AGM Notice);

and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-1020-990 or 1800 22 44 30 or send a



शारिका एंटरप्राइजेज लिमिटेड सीआईएन : L51311DL1998PLC093690

पंजीकृत कार्यालय : एस-550-551, स्कूल ब्लॉक पार्ट-2, वेलकम प्लाजा, शंकरपुर, दिल्ली-110092

कॉर्पोरेट कार्यालय : बी-124, सेक्टर-67, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा-201301, उ.प्र. दुरभाष नं. : +91 120 2593900 ई-मेल : cs@sharikaindia.com, वेबसाइट : www.sharikaindia.com

कम्पनी की 23वीं वार्षिक आम बैठक तथा ई-वोटिंग की जानकारी की सचना . राद्वारा सचना दी जाती है कि कि कम्पनी की 23वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कांफ्रेंस [वीसी]/अन्य ऑडियो विजअल साधनों [ओएवीएम] के माध्यम से 28 सितम्बर, 2021 को 01.00 बजे अप. को आयोजित की जायेगी। कॉर्पोरेट मामले न्त्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या २०/२०२०.१४/२०२०.१७/२०२०. २०/२०२०. ३९/ २०२० तथा सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/C-MD1/CIR/P/2020/79 परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/C-MD2/CIR/P/2021/1 के अनुपालन में कम्पनियों को किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमित दी गयी है। अतः एजीएम की सुचना में निर्धारित व्यवसाय के लेन-देन के लिए कम्पनी

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के प्रावधानों के अनुपालन में व्याख्यात्मक विवर सिहत एजीएम की सचना उन सभी सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.sharikaindia.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित और भाग ले सकेंगे। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सचना में उपलब्ध कराये जायेंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम सं भाग लेने वाले सदस्यों की परिगणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार एजीएम में कोरम पूरा करने के

कम्पनी एजीएम की सुचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना मतदान करने हेतु अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सविधा उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सविध . उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग हेतु विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सुचना में उपलब्ध कराई जायेगी।

1. ई-वोटिंग शनिवार, 25 सितम्बर, 2021 को 9.00 बजे पूर्वा. प्रारम्भ होगी।

2. ई-वोटिंग सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगी।

4. जिन सदस्यों ने सचना भेजे जाने के उपरान्त शेयर अर्जित किये हैं वे helpdesk.evoting@cdslindia.com फ

एजीएम की सचना और ई-वोटिंग हेत लॉगिन विवरण पाप्त करने हेत कपया ई-मेल पता पंजीकत कराने हेत निम्नलिखित चरणों का अनपालन करें :

भौतिक शेयरधारक : कृपया फोलियो नम्बर, शेयरधारक नाम आदि आवश्यक विवरण, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन्ड प्रति (आगे तथा पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति) ई मेल द्वारा cs@sharikaindia.com /helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेजें।

के साथ अपडेट करें जो ई-वोटिंग तथा डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए अनिवार्य है कम्पनी की एजीएम की सुचना प्रयोज्य कानुनों के अनुसार डिस्पैच हेतु कट-ऑफ तिथि तक शेयरधारण करने वाले शेयरधारक के पास उचित समय पर उनके पंजीकृत ई-मेल पर भेजी जायेगी।

शारिका एन्टरप्राइजेज लिमिटेड राजिन्दर कौल

ऐरिसेंट टेक्नोलॉजीज (होल्डिंग्स) लिमिटेड CIN: U72100DL2006PLC149728

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना में निर्घारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए अरिसेंट टेक्नोलॉजीज (होल्डिंग्स) लिमिटेड ("कंपनी") की 15वीं (पंद्रहवीं) वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 को दोपहर 03:30 बजे (आईएसटी) में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग "वीसी")/अन्य ऑडियो-विडियो साधनों ("ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, 22 / 2020 दिनांक 15 जन, 2020, 33 / 2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020, 39 / 2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तथा 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 ("एमसीए परिपत्र") के अनुसरण में कंपनी ने एजीएम की सूचना के साथ वितीय वर्ष 2020-2021 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 1 सितम्बर, 2021 को भेज दी है जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्टार एंड ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की घारा 108 के प्रावधानों पठित लागू नियमों और एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी संकल्पों पर इलैक्ट्रॉनिक तरीके से अपने मत डालने के लिए सदस्यों को रिमोट ई-मतदान सुविधा प्रदान करती है। कंपनी ने इस ई-मतदान प्लेटफार्म को प्रदान करने के लिए एजेंसी के तौर पर केफिन टेक्नालॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ("केफिन") की सेवाओं को काम में लिया है।

रिमोट ई-मतदान अवधि मंगलवार, 21 सितम्बर, 2021 को प्रातः 09:00 बजे प्रारम्म होगी तथ गुरूवार, 23 सितम्बर, 2021 को साथं 05:00 बजे समाप्त होगी। 23 सितम्बर, 2021 को साथं 05:00 बजे के बाद रिमोट ई-मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों को मतदान का अधिकार कट-ऑफ तारीख, अर्थात शुक्रवार 17 सितम्बर, 2021 को कंपनी की पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होगा। एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तारीख को सदस्यों / लाभदायक स्वामियों के रजिस्टर में उपस्थित होता है, केवल वही बैठक में मतदान के साथ-साथ रिमोट ई-मतदान की सुविधा प्राप्त करने का पात्र होगा। वह व्यक्ति, जो कट-ऑफ

कोई व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है तथा एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद सदस्य बन जाता है तथा उसके पास कट-ऑफ तारीख, अर्थात, 17 सितम्बर, 2021 को शेयरों की होल्डिंग है, वह evoting@Klintech.com अथवा all_cosec@altran.com को अनुरोध भेज कर अथवा केफिन अथवा कंपनी को लिख कर यूजर आईढी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। परन्तु, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-मतदान के लिए केंफिन के साथ पहले से पंजीकृत हैं, तो वे अपने मौजूदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करेंगे तथा उनको कोई नया यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की जरुरत नहीं होगी।

के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना बोट नहीं दिया है, केवल वहीं एजीएम के दौरान ई-बोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के लिए योग्य होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट का प्रयोग एजीएम से पहले ही कर दिया है, वे भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एजीएम में शामि हो सकते हैं परन्तु वे दोबारा मत दालने के लिए पात्र नहीं होंगे। विस्तृत मतदान निर्देश एजीएम नोटिस में निर्धारित किए गए हैं।

शेयरधारक जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है या गलत ई-मेल पता पंजीकृत कराया है और जिसके कारण उन्हें भेजे गये वार्षिक रिपोर्ट, बैठक की सूचना और ई-वोटिंग विशानिवेंश प्राप्त नहीं हो सके हैं, वह https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/ mobileemalreg.aspx के लिंक पर क्लिक करके उसमें दी गई प्रक्रिया का पालन कर अपना ई-मेल

पता एवं मोबाइल नम्बर अस्थाई रूप से केफिन के पास पंजीकृत करा सकते हैं। किन्हीं प्रश्नों की रिथति में, आप evoting@Kfintech.com के डाउनलोड खंड पर शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) अथवा शेयरधारकों के लिए प्रयोक्ता मैनुअल को देख सकते है अथवा टेलीफोन नंबर 1-800-309-4001 (टोल फ्री) पर केफिन के साथ संपर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई-मतदान के संबंध में किसी प्रकार की शिकायतों की स्थिति में, कृपया केफिन टेक्नालॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टाक्र बी, प्लॉट न0ं. 31-32, वित्तीय डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद, तेलंगाना-500 032 पर श्री आनन्दन, के., प्रबंधक-कार्पोरेट रजिस्टरी, को ईमेल आईडी einward.ris@kfintech.com या टोल-फ्री नo. 1-800-309-4001 पर

स्थानः नई दिल्ली

ऐरिसेंट टेक्नोलॉजीज (होल्डिंग्स) लिमिटेड वीपी-लीगल एवं कंपनी सचिव

NOTICE TO EQUITY SHREHOLDERS Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund Authority

Notice is hereby given that pursuant to provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended (the "Rules"), the equity shares of the Company with respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven (7) consecutive years or more are required to be transferred by the Company to the demand account of the Investor Education and Protection Fund Authority (the "Authority"). In this regard the interim dividend of FY 2014-15 declared by the Company is becoming due for transfer to the Authority on or after December 01, 2021.

In accordance with the Rules, the Company shall simultaneously serve individual communications in electronic mode to the concerned shareholders at their registered email address and the said communication shall be sent in the physical mode to those shareholders whose email address is not registered with Company at their latest available address to claim such dividend(s)

This notice is addressed to those shareholders whose shares are liable to be transferred to the Authority during financial year 2021-2022 for taking appropriate action.

The Company shall also upload the full details of such shareholders including their names, folio number or DP ID & Client ID and equity shares due for transfer to the Authority on its website https://smcindiaonline.com/. Shareholders are requested to refer to the said website to verify the details of unpaid/unclaimed dividend and the shares

The concerned shareholders, holding equity shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for converting the said shares into demat form, after following the procedures as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs; thereafter the said shares would be transferred in favour of the Authority. The original share certificate(s) registered in the name of the shareholder(s) will stand automatically cancelled.

For the equity shares held in demat form, the Company would inform respective depository by way of corporate action, where the shareholders have their account for the transfer of such shares in favour of the Authority.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by December 01, 2021 the Company without any further notice shall in compliance with the Rules, transfer such shares to the Authority by the due date in accordance with the procedure stipulated in the Rules.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the shares transferred to the Authority. However, the unclaimed dividend and shares transferred to the Authority including all benefits accruing on such shares, if any ,can be claimed back by the concerned shareholders from the Authority after following the procedure prescribed by the Rules. For more details please refer www.iepf.gov.in and also on Company website at https://smcindiaonline.com/.

In case of any queries in respect of the above matter, shareholders may contact the Registrar and Transfer Agent of the Company, Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH-2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri. New Delhi - 110058, Tel no. 011-41410592-94, E-mail id: delhi@linkintime.co.in, Website: www.linkintime.co.in.

Corporate Identity Number (CIN: L74899DL1994PLC063609) Registered Office: 11/6B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi-110005

Ph: +91-11-30111000, 40753333 | Fax: +91-11-25754365



Vitesse Agro Limited

(Formerly known as EQUINOX CO. LTD.) CIN: L01200GJ1980PLC093159

Registered Office 322/A Madhavpura Gunj Bazar, Madhavpura, Ahmedabad-380004 Cor. Registered Office: A-105, 3rd floor, sector-63, Gautam Buddha Nagar, Noida 201301 UF Email: organicipo@gmail.com Website: www.vitesseagro.in TEL: NO. - 0120-4319744

Information Regarding 41st Annual General Meeting To be held through Video Conference / Other Audio - Visual Means

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting ('AGM') of the Members of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 29th September, 2021 at 1.00 P.M. Through Video Conference (VC) /Other Audio Visual Means ('OAVM') without physical presence of the members at a common venue, on compliance with provisions of the Companies Act, 2013, MCA circular dated 5 May 2020 read with circulars dated 8 April 2020 and 13 April 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI circular date 12 May 2020, to transact the business as set out in the Notice convening the 41st AGM.

In compliance with the said MCA circulars and SEBI circular, electronic copies of the Notice of 41st AGM and Annual Report for FY 2021 will be sent to all the members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants.

Members, who have not registered their email addresses and mobile numbers, are requested to furnish the same to the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Skyline Financial Services Private Limited at info@skylinerta.com to get their email addresses and mobile numbers registered temporarily. The Notice of the 41st AGM and the Annual Report FY 2021 will also made available on the Company's website at www.vitesseagro.in Website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at

The Company is providing remote e-voting facility remote e-voting facility ('remote e-voting) to all its members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of the 41st AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ('e-voting'). Detailed procedure for joining the AGM and remote e-voting/ voting is provided in the Notice of the 41st AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

> For Vitesse Agro Limited Sd/-

Place: Uttar Pradesh Roop Kishore Gola Date: 01st September 2021 Director

टिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ए-23, मंदािकनी एन्कलेव, अलकनन्दा, जीके-II, नई दिल्ली-110019 सम्पर्क : 011-40562329, वेबसाइट : www.trinitygraup.ind.in ई-मेल: trinityleague@trinitygraup.ind.in

33वीं वार्षिक आम बैठक की सचना

एतद्वारा सचना दी जाती है कि एजीएम की सचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन–देन हेत टिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड की तैंतीसवीं वार्षिक आम बैठक (33वीं एजीएम) केवल ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजअल साधनों ('ओएवीएम') द्वारा सोमवार. 27 सितम्बर, 2021 को 11.30 बजे पर्वा. आयोजित की जायेगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020, 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 एवं सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 तथा परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के अनुपालन में एजीएम केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जायेगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सचना में प्रावधानित हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 सहित एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों के पास भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते कम्पनी या सीडीएसएल/एनएसडीएल (डिपॉजिटरी) के साथ पंजीकृत हैं और इसे कम्पनी की वेबसाइट www.trinitygroup.ind.in तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.co

। जिन सदस्यों ने अपने ई−मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं और परिणामस्वरूप उनके पास एजीएम की सूचना तथा ई वोटिंग के निर्देशों सहित वार्षिक रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी है. वे इसके लिए इलेक्टॉनिक फोलियो के मामले में ई-मेल पता, मोबाइल नम्बर, पैन तथा क्लाइंट मास्टर की स्वप्रमाणित प्रति तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर 🛮 प्रमाण-पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए हस्ताक्षरित निवेदन की स्कैन्ड प्रति कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट. बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड के पास investor@beetalfinancial.com पर भेज दें ताकि वे वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना तथा ई-वोटिंग के निर्देश प्राप्त कर सकें।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि 24 सितम्बर, 2021 को 10.00 बजे पुर्वा. प्रारम्भ होगी और 26 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान भौतिक प्रारूप या डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कम्पनी के शेयरधारक इलेक्टॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके पश्चात वोटिंग हेतु ई–वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा अर्थात 26 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे अप. के उपरान्त वोटिंग की अनमति नहीं होगी। ई–वोटिंग की सविधा एजीएम के दौरान उन सदस्यों के लिए भी उपलब्ध कराई जायेगी जो एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने पहले मतदान नहीं किया है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम से पर्व अपना मतदान कर लिया है वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं किन्त उन्हें दुबारा मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।

की कट-ऑफ तिथि सोमवार, 20 सितम्बर, 2021 है। कोई व्यक्ति जो सचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है वह अपना मतदान करने के लिए investor@beetalfinancial.com पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई-वोटिंग करने की विस्तत प्रक्रिया एजीएम की सचना में उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कृपया अपने बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन की सचना अपने डिपॉजिटरी भागीदारों को सचित करें जिनके द्वारा उनके डीमैट खाते अनरक्षित किये जा रहे हैं। कम्पनी अथवा इसका आरटीए बैंक विवरण या बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन हेत इलेक्टॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से सीधे किसी निवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा। ऐसे परिवर्तन केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी भागीदारों के पास

रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने

ही परामर्शित होने हैं। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों कृपया अपने बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन की सूचना बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, लोकल शॉॉीपंग सेंटर, निकट दादा हरसुखदास मन्दिर, नई दिल्ली-110062 के पास भेजें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड

| स्थान : नई दिल्ली तिथि : 01 सितम्बर, 2021

पीयूष कुमार श्रीवास्तव कम्पनी सचिव

बीटल टेलीटेक लिमिटेड

(पूर्व में ब्राइटस्टार टेलीकम्युनिकेशन्स इंडिया लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, प्लॉट नं. 16, उद्योग विहार फेज IV, गुड़गाँव 122015, हरियाणा, भारत

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U32204HR1999PLC042204 फोन नं. : +91-124-4823500, फैक्स नं. : +91-124-4146130,

वेबसाईट : www.beetel.in, ई-मेल : legal.secretarial@beetel.in 22बीं वार्षिक बैठक और ई-वोटिंग के संबंध में सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि बीटेल टेलीटेक लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 22बीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14 / 2020 (दिनांक 8 अप्रैल, 2020) 17 / 2020 (दिनांक 13 अप्रैल, 2020) तथा 20 / 2020 (दिनांक 5 मई, 2020), 02 / 2021 (दिनांक 13 जनवरी, 2021) के साथ पिटत कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनयम") तथा उसके तहत निर्मित प्रावधानों के अनुपालन में किसी सार्वजनिक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कन्फ्रेंसिंग (वीर्सी) / अन्य ऑडियो विजुयल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को लेन—देन करने के लिए गुरूवार, 23 सितंबर, 2021 को दोपहर 3:30 बजे आयोजित की जायेगी।

एजीएम की सूचना और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2020—2021 (31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए) की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ई–मेल आईडी कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट अथवा डिपॉजिटरी भागीदार (रों) के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना भेजने का कार्य 31 अगस्त 2021 को पूर्ण कर लिया गया है। कृपया ध्यान दें कि सदस्यों के पास एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता एमसीए परिपत्र(त्रों) के माध्यम से समाप्त कर दी गयी है। एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2020–2021 कम्पनी की वेबसाइट www.beetel.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर

जो सदस्य भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करते हैं और उनके ई–मेल आईडी कम्पनी के साथ पंजीकत नहीं हैं उनसे सदस्य का नाम एवं पता.पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति किसी दस्तावेत (जैसे आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान कार्ड, पासपोर्ट) की स्कैन्ड प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन्ड प्रति यथाशीघ्र ई—मेल द्वारा admin@mcsregistrars.com तथा / अथवा legal.secretarial@beetel.in पर भेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराने का निवेदन किया जाता है। अभौतिक (डीमैट) प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अपने सम्बन्धित डिपॉजिटरी भागीदार के साथ अपने ई-मेल आईर्ड पंजीकृत / अपडेट का सकते हैं। एजीएम की सूचना में सदस्यों द्वारा रिमोट ई—वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की प्रकिया शामिल है। ईमेल आईडी अपडेट करने के बाद सदस्य

evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। कम्पनी अधिनियम, २०१३ की धारा १०८ तथा कम्पनी (प्रवन्धन एवं प्रशासन) नियम, २०१४ एवं एमसीए परिपत्र(त्रों) के अनुपालन में कम्पनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") रे ई-वोटिंग सेवाएँ ली हैं और वोटिंग प्रकिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी संवीक्षा के लिए कम्पनी ने श्री देवेश कुमार वशिष्ठ (सीपी सं. 13700), साझेदार अथवा उनकी अनुपस्तिथि में सूश्री प्रियंका (सीपी सं. 16187). मैसर्स संजय ग्रोवर एन्ड एसोसिएटस, कम्पनी सेक्रेटरी की साझेदार को संवीक्षक के रूप में

1. एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट विशेष व्यवसायों का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा

मतदान के माध्यम से किया जारोगा।

2. रिमोट ई-वोटिंग सविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी

रिमोट ई—वोटिंग प्रारम्भ होने की तिथि सोमवार, 20 सितंबर, 2021 को सुबह 9.00 बजे (भा.मा.स.) से रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति बुधवार, 22 सितंबर, 2021 को शाम 5.00 बजे (भा.मा.स.) तक 3. गुरूवार, 16 सितंबर, 2021 (कट—ऑफ तिथि) तक भौतिक प्रारूप या अभौतिक प्रारूप (डिमैट) में शेयर धारण करने वाले सदस्य एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक साधनो द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। जो सदस्य कट-ऑफ तिथि तक शेयर / प्रतिभति धारण नही

करता है उसे इस सूचना को केवल सूचना के रूप में लेना चाहिए। जो व्यक्ति एजीएम की सूचना भेजें जाने के पश्चात कम्पनी का सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात गुरूवार, 16 सितंबर, 2021 को शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। किन्तू यदि वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो मतदान करने के लिए वह वर्तमान यजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

सदस्य ध्यान दें कि (अ) 22 सितंबर, 2021 को 5.00 बजे अप. के पश्चात रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वाारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा, इसके पश्चात सदस्य को इसे परिवर्तित करने की अनुमति

(ब) एमसीए परिपत्रों के सन्दर्भ में जो सदस्य एजीएम में उपस्थित होंगे केवल वे ही एनएसडीएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में इलेक्ट्रानिक वोटिंग की सुविधा प्राप्त करेंगे (वीसी के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम सचना की टिप्पणियों में

(स) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं किन्तु वे पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

(द) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात गुरूवार, 16 सितंबर, 2021 तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉटिरी के लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान मतदान से सम्बन्धित प्रश्नों की पछताछ के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड पर उपलब्ध शेयरधारकों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वोश्चन्स (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों हेत् यूजर मैन्अल देखें अथवा evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेजे अथवा टोल फ्री नं. 18001020990 अथवा 1800224430 पर कॉल करें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबन्धक अथवा सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबनधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013 से ई—मेल आईडी: pallavid@nsdl.co.in अथवा SoniS@nsdl.co.in पर सम्पर्क करें अथवा दूरभाष नं. +91 22 24994545, +91 22 24994559 पर कॉल करें।

सदस्य विशेष रूप से एजीएम में शमिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई—वोटिंग के लिए एजीएम की सूचना में उल्लिखित सभी टिप्पणियों को ध्यान से पढें। निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

> बीटल टेलीटेक लिमिटेड नीरज मनचन्दा

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दुसरे राज्य में परिवर्तित करने के लिए समाचार पत्र दसरे राज्य में परिवर्तित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विजापन

(क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) एवं कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के उपबन्ध (क) के मामले

सुर्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकत कार्यालय 102. शर्मा कॉम्पलेक्स ए-2, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली 110092 पर है। आवेदक कम्पर्न

एतद्वारा जनसामान्य को सचित किया जाता है कि य कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन केन्द्र सरकार जिसकी क्षेत्रीय निदेशक को प्रदत्त है. समक्ष आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय ''दिल्ली राज्य'' से ''उत्त प्रदेश राज्य'' में स्थानान्तरित करने के लिए 27.08.202 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित संकल्प र सन्दर्भ में कम्पनी के संगम जापन में संशोधन की पष्टि क माँग की गयी है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टर (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसन विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपी पादेशिक निदेशक को इस सचना के प्रकाशन की तारीख 14 दिनों के भीतर बी-2, विंग, दुसरी मंजिल, पर्यावर भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पते प पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपूर्व कर सकते और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनवे निम्नलिखित पंजीकत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा : 102, शर्मा कॉम्पलेक्स, ए-2, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092

> आवेदक के लिए तथा उनकी ओर अनिल सिंह गौतम

<mark>तिथि : 31.08.2021</mark> स्थान : नई दिल्ली

निदेशक डीआईएन : 01032103

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से

में प्रकाशित होने वाला विजापन (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के समक्ष कम्पनी अधिनियम. 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) एवं कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के उपबन्ध (क) के मामले

सूर्या ट्रेनिंग एण्ड स्टडी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय 102, शर कॉम्पलेक्स, ए-2, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर,

दिल्ली-110092 पर है। ... आवेदक

एतद्वारा जनसामान्य को सचित किया जाता है कि यह कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन केन्द्र सरकार जिसकी क्षेत्रीय निदेशक को प्रदत्त है. समक्ष आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसग कम्पनी का पंजीकत कार्यालय ''दिल्ली राज्य'' से ''उत्त प्रदेश राज्य'' में स्थानान्तरित करने के लिए 27.08.202 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित संकल्प व सन्दर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पष्टि व माँग की गयी है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है य एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2, विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पते प पंजीकत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपूर्द कर सकते और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनव निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा : 102. शर्मा कॉम्पलेक्स, ए-2, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092

आवेदक के लिए तथा उनकी ओर

अनिल सिंह गौतम तिथि : 31.08.2021 निदेशक स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 01032103

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

तकनीकी सेवा केन्द्र, जापानीगेट, बालिटिकुरी, हावड़ा-711113 दूरभाष: 033-29790304, ईमेल: ntschow@nsic.co.in

निविदा आमंत्रण सूचना

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) द्वारा योग्य / अहर्ताप्राप्त निविदाताओं से मोहर बंद निविदाएं मशीनों की आपूर्ति एवं स्थापना हेत् आमंत्रित की जाती है जेसे Supply, Installation and Commissioning of Thermal-Mechanical Performance Test Chamber for their Technical Services Centre, Howrah. निविदाओं से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने हेत् एन०एस०आइ०सी की वेबसाइट www.nsic.co.in पर जा कर उपलब्ध की जा सकती है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 17/09/2021 को 15:00 घंटे तक है। अधिक जानकारी के लिए एन॰एस॰आइ॰सी की वेबसाइट पर देखे https://www.nsic.co.in/ tender/Current-Tenders.aspx महाप्रबंधक SG (NTSC-Howrah)

LORENZINI APPARELS LIMITED

CIN: L17120DL2007PLC163192 Regd. Office: C-64, OKHLA INDUSTRIAL AREA PHASE-I, NEW DELHI -110020 E-mail ID: forenzini_apparels@yahoo.co.in

> Website: www.mymonteil.com NOTICE OF 14TH ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

The 14th Annual General Meeting (AGM) of members of the Company will be held on Saturday, 25th

Day of September, 2021 at 03:00 P.M. at C-64, Okhla, Industrial Area, Phase-I, New Delhi -110020 to

Notice is hereby given that

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), the Company is providing its members the facility to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM ("remote evoting"), provided by CSDL and the business may be transacted through such voting, on all the resolutions set forth in the Notice of AGM

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2020-2021 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.mymonteil.com and can also be accessed from the website of Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and Registrar and Transfer agent of the Company i.e. www.skylinerta.com. Members whose email ids are not registered with their Depository Participants are hereby requested to register/update the same with

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date Saturday, 18th September, 2021, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than venue of the AGM (remote e-voting). All the members are informed

The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronics means:

The remote e-voting shall commence on 22nd day of September, 2021 at 9:00 A.M.;

The remote e-voting shall end on 24th day of September, 2021 at 5.00 P.M. and thereafter E-The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Saturday, 18th September, 2021 may obtain the Login ID and Password by sending a request athelpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for evoting then existing user ID and password can be used for casting vote;

Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5.00 P.M. on 24th Day of September, 2021 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently

 b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at venue of the AGM; the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend

 a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper. The Notice of AGM is available on the Company's website www.mymonteil.com and also on the

For any queries/ grievances related to e-voting shareholders may contact to: Skyline Financial Service Private Limited, D-153-A, 1st Floor, Okhla Industries Area, Phase -1, New Delhi-110020.

5. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall be closed from Thursday, 16th September, 2021 to Saturday, 25th September, 2021 (both day inclusive). For Lorenzini Apparels Limited

the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and

Place: New Delhi

Sandeep Jain **Managing Director**

10वीं ई-नीलामी विक्री सुचना पंजाब बासमती गईस लिमिटेड- आईबीमी के अंतर्गत परिसमापन में (CIN No.: U15312PB1995PLC015550) पंजी. कार्यालय: संग्राना साहिब, तरन तारन रोड, अमृतसर- 143001 (पंजाब)

आप जनता को एतद्द्वारा इस नेटिस द्वारा सुचित किया जाता है कि पंजाब बासमती राईस लिमिटेड-आईबीसी अंतर्गत परिसमापन में, के खाते में ई-नीलामी ऑनलाईन द्वारा पनि और पवन और संबंध और मशीनरी और अन्य विविध संपत्ति और औद्योगिक शेड (लॉट नंबर 1), संयंत्र और मशीनरी और अन्य विविध संपत्ति (लॉट नंबर 2), औद्योगिक शेंद्र (लॉट नंबर 3) और भूमि और भवन (लॉट नंबर 4) की समग्र विक्री के लिए 13.08.2021 को 10वीं ई-नीलामी बिक्री सुचना समाचार पत्रों अर्थात फाइनेन्शियल एकाप्रैस (अंग्रेजी) और जनसन्ता (हिंदी) चंदीगढ़ और दिल्ली संस्करण में और रोजाना स्योक्समेन (पंजाबी) में प्रकाशित किया गया था जो वेबपोर्टल https://www.eauctions.co.in पर 02.09.2021 को अधिसृचित है। ई-नीलामी की तिथि को एतदहारा चढ़ाया जाता है और घीरखार, 09.09.2021 को पर्वाह्व 11.00 बजे से सार्च 5.00 बजे तक पुनः अधिसचित किया जाता है (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)। तदनसार, संबंधित दस्तावेजों के साथ ईएमडी जमा करने की तिथि मंगलवार, 07.09.2021 तक बढ़ा दी गई है। अन्य नियम एवं शर्ते उपलब्ध निविदा दस्तावेज के अनुसार समान है।

> जारीकर्ता और इस्ताक्षरकर्ता संजय कुमार अग्रवाल, परिसमापक पंजाब बासमती राईस लिमिटेड-परिसमापन में आईबीबीआई पंजी. मं. IBBI/IPA-002/N-00126/2017-18/10295

RELIANCE MONEY

दिनांक: 01.09.2021

सार्वजनिक सचना

जनसामान्य को एतद्वारा सचित किया जाता है कि ऋण संख्या RLLFJAI000259677 के परिप्रेक्ष्य में श्री हरप्रीत सिंह खनुजा के पक्ष में मूल विक्रय विलेख पंजीकरण दिनांक 19.05.2007 (यूनिट नं. 31) तथ

दिनांक 20.10.2007 (यनिट नं. 29) अनेक प्रयासों को बावजद नहीं मिल रहे हैं। एतद्वारा जनसामान्य को चेतावनी दी जाती है कि वे उपर्यक्त सत्य एवं वास्तविक स्वामियों को छोडकर अनसचित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई लेन-देन न करें।

यदि कोई व्यक्ति उपर्यक्त दस्तावेज प्राप्त करता है तो वह कपया यथाशीघ्र इसे 'आरसीएफएल' व निम्नलिखित कार्यालय से सम्पर्क करे।

कोई व्यक्ति कथित दुकान परिसर या उसके किसी भाग पर विक्रय, उपहार, पट्टा, विरासत, विनिमय, प्रभार लिएन, टस्ट, कब्जा, ईजमेंट, अटैचमेंट या अन्यथा विधि के माध्यम से कोई दावा करता है या कोई हित रखता है तो वह इसे इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर ''आरसीएफएल'' के निम्नलिखित कार्यालय पर सुचित करे जिसमें असफल होने पर कथित दुकान परिसर का संव्यवहार बिना किसी ऐसे दावे के सन्दर्भ के हरप्रीत सिंह खनुजा द्वारा किया जायेगा और इसे मुक्त माना जायेगा।

नीचे उल्लिखित अनुसूचित सम्पत्ति के साथ किसी थर्ड पार्टी द्वारा संव्यवहार उसके अपने जोखिम एवं लागत पर होगा और वह आपराधिक दायित्व का भागी होगा।

अनुसूची सम्पत्ति : 'शोरूम/युनिट नं. 31 एवं 29, भृतल, ''सिटी पल्स जयपर'' हरनाथपैलेस. प्लॉट नं. 21. लाल निवास

सवाई राम सिंह रोड, जयपुर, राजस्थान।' कते रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (''आरसीएफएल'')

6ठा तल. मन उपासना टॉवर, सरदार पटेल मार्ग. सी-स्कीम. जयपुर-302001, राजस्थान

तिथि: 02.09.2021

रिलायंस मनी ब्राण्ड रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस कम्पनी (पूर्व की रिलायंस गिफ्ट लिमिटेड) द्वारा प्रस्तु रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ही रिलायंस कैपिटल लिमिटेड कम्पनी है।

प्रपत्र जी रुचि की अभिट्यक्ति हेतु आमन्त्रण [ऋण शोध अक्षमता तथा दिवालिया (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन] ससंगत विशिष्टियाँ

। कार्पेरेट देनदार का नाम बिन्दल्स स्पोंज इंडस्टीज लिमिटेड 2 कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि 20.02.2003 3 प्राधिकरण जिसके अधीन कापेरिट देनदार आरओसी-दिल्ली निगमित/पंजिकृत है 4 कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान U27109DL2003PLC119070 संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या कार्पेरेट देनदार के पंजीकत कार्यालय तथा

पंजीकृत कार्यालय: 217, दूसरी मंजिल, अग्रवाल प्रेस्टिज मॉल, प्लॉट नं. प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता कम्यनिटी सेंटर, रोड सं.44 के साथ, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, निर्माण डकाई: ग्राम सुनाखानी, पो.ऑ. तालचर, जिल्ला: अनेगुल-759006 (औड़िशा). सीडी के पूर्व प्रबंधन ने 22.01.2015 से शटडाउन घोषित कर दिया। कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध | 11/05/2018: माननीय एनसीएलटी ने अपने दिनांक26.07.2021 के आदेश द्वारा नए दिनांक सिरे से रुचि की अक्षमता आरंभन की तिथि अभिव्यक्ति के लिए निर्देशित किया

7 रिच की अभिव्यक्ति के आमन्त्रण की तिथि 02.09.2021 विवरण cirp.bindals@gmail.com पर संहिता की धारा 25(2)एच) के तहत समाधान आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है: ई-मेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है। 9 धारा 29ए के तहत प्रयोज्य अपात्रता के विवरण cirp.bindals@gmail.com पर ई-मेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है। मानदण्ड उपलब्ध हैं:) रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अन्तिम तिथि। 17.09.2021 सम्भावित समाधान आवेदकों की अस्थायी 27.09.2021 सची निर्गत होने की तिथि

अस्थायी सची की आपत्तियाँ जमा करने की 02.10.2021 अन्तिम तिथि 3 सम्भावित समाधान आवेदकों की अन्तिम सुची 11.10.2021 निर्गत होने की तिथि सम्भावित समाधान आवेदकों हेत् सूचना ज्ञापन 02.10.2021

पत्र, मुल्यांकन आव्युह तथा निवेदन के निर्गमन की तिथि 5 समाधान योजना, मुल्यांकन, आव्युह, सूचना समाधान योजना, मुल्यांकन, मैटिक्स, ज्ञापन पत्र तथा अधिक सूचना हेत् निवेदन सूचना ज्ञापन हेत् निवेदन आईबीसी की धारा 29(2) के अनुसार गोपनीयता की

शपथ-पत्र की प्राप्ति के पश्चात क्रेडिटर समिति द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाले क्वालिफाइड तथा शॉर्टीलस्टेड सम्भावित समाधान आवेदकों के साथ केवल ईमेल द्वारा समाधान प्रोफेशनल द्वारा साझा किया जायेगा। मेल आईडी: cirp.bindals@gmail.com 6 समाधान योजनाओं के जमा होने की अन्तिम तिथि 01.11.2021

महरबन्द लिफाफे द्वारा नीचे बिन्द संख्या समाधान प्रोफेशनल हेत् समाधान योजना जमा 21 में प्रदत्त पते पर तथा साथ ही मेल द्वारा करने की रीति cirp.bindals@gmail.com पर 8 अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकरण के पास सीओसी द्वारा अनुमोदन के तुरन्त बाद समाधान जमा करने की सम्भावित तिथि

Dinesh Sood: IBBI/IPA-002/N-9 समाधान प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण 00046/2016-17/10091 0 बोर्ड के साथ पंजीकृत के अनुसार समाधान दिनेश सुद, बी -1001, मीडिया सोसाइटी, प्लॉट सं. 18-ए, सेक्टर-7, प्रोफेशनल का नाम, पता तथा ई-मेल द्वारका, नई दिल्ली-110075, ई-मेल:

dk.sood@yahoo.com समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार हेत् दिनेश सूद, C/o., योगक्षेम इंसॉल्वेंसी प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई-मेल प्रोफेसनल्स, एलएलपी, युजिएफ 1/15, (निकट पीएनबी), तिलक नगर,नई दिल्ली-110018, ई-मेल: cirp.bindals@gmail.com

22 अधिक विवरण आग्रलिखित पर या इसके विवरण्: cirp.bindals@gmail.com पर निवेदन भेजकर प्राप्त किया जा साथ उपलब्ध है सकता है। 23 प्रपत्र जी के प्रकाशन की तिथि 02.09.2021

दिनेश सूद, C/o., IBBI/IPA-002/N-

देवन हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्राधिकृत अधिकारी

00046/2016-17/10091बी -1001 समाधान प्रोफेशनल का नाम मीडिया सोसाइटी, प्लॉट सं. 18-ए, समाधान प्रोफेशनल की पंजीकरण संख्या सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110075, आरपी का पंजीकृत पता कते: बिन्दल्स स्पोंज इंडस्टीज लिमिटेड तिथि : 02,09,2021

देवन हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

राष्ट्रीय कार्यालयः एचडीआईएल टावर्स, छठा तल, स्टेशन रोड, ए.के. मार्ग, बान्द्रा (ईस्ट), मुम्बई-400051 क्षेत्रीय कार्यालय : डीएचएफएल क्षेत्रीय कार्यालय : कार्यालय सं. 211 एवं 212, दूसरा तल, 'टाइटेनियम' शालीमार कॉर्पोरेट पार्क, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

समाधान प्रोफेशनल का हस्ताक्षर

सम्पर्क व्यक्ति : 1. श्री विवेक सिंह (मोबाइल : 9369338960) ई-नीलामी बिक्री सूचना-अनुगामी बिक्री ऋणधारक/ कों से बकाये राशि की वसली के लिये वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्त्तन अधिनयम, 2002 के अंतर्गत देवन हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी द्वारा

कर्जदार(रों)⁄सह-आरक्षित मूल्य जमा धरोहर राशि कुल बकाया ऋण कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम तिथि तथा राशि का विवयण (आरपी) (आरपी का 10%) (31 अगस्त, 2021 तक) एलसी. नं.- 00000648, कानपुर- शाखा) सम्पत्ति का सम्पर्ण भाग : प्लॉट नं. 5 रु. 13.000/- (रुपये तेरह हजार मात्र) रु. 13, 95, 255/-(रुपये तेरह लाख आर.के. तिवारी/ शोभा तिवारी रु. 12,53,651 (रुपये बारह लाख तिरेपन अराजी सं. 1254 का भाग, नौबस्ता, पिचानबे हजार दो सौ पचपन मात्र) हजार छः सौ इक्यावन मात्र) कानपुर, कानपुर, कानपुर रूरल-208021 (एलसी. नं.- 00004043, कानपुर- शाखा) 19-11-2019, सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : अराजी सं. रु. 9.13.535/- (रुपये नौ लाख तेरह रु. 12,70,000/- (रुपये बारह लाख रु. 1,27,000/- (रुपये एक लाख 649 का भाग, प्लॉट नं. 17 तथा 18, हजार पाँच सौ पैंतीस मात्र) रु. 7,28,399 (रुपये सात लाख सत्तर हजार मात्र) सत्ताईस हजार मात्र) अट्ठाईस हजार तीन सौ निन्यानबे मात्र) शिवली रोड, रायकेपुर परगना, कानपुर, कानपुर अर्बन उत्तर प्रदेश- 208017 (एलसी. नं.– 00003364, कानपुर– शाखा) सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : प्लॉट सं. 13 रु. 48,600/- (रुपये अडतालीस हजार रु. 9,07,387/- (रुपये नौ लाख सात 20-05-2019, र. 4.86.000/- (रुपये चार लाख अराजी सं. 37, ग्राम कुरसौली, कानपुर हजार तीन सौ सत्तासी मात्र) ओमकार छोटे/अनीता देवी रु. 7,14,675 (रुपये सात लाख चौदह छियासी हजार मात्र) हजार छः सौ पिचहत्तर मात्र) नगर कानपुर अर्बन सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : प्लॉट सं. 72 रु. 09,00,000/- (रुपये नौ लाख मात्र) रु. 90,000/- (रुपये नब्बे हजार मात्र) (एलसी. नं.- 00001390, 24-10-2018, रु. 11,54,736 (रुपये रु. 16, 89, 839/- (रुपये सोलह लाख ग्यारह लाख चौवन हजार सात सौ छत्तीस नवासी हजार आठ सौ उनतालीस मात्र) कानपुर- शाखा) राजेन्द्र कुमार/ सुनीता एवं 73, अराजी नं. 377 ग्राम टिकरा परगना, कानपुर, कानपुर रूरल- 208020

सार्वजनिक नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं: 1. निर्धारित निविदा प्रारूप में निविदा/मुहरबंद संविदा/प्रस्ताव तथा ईएमडी एवं केवाईसी जमा करने की अन्तिम तिथि 06.10.2021 को 5.00 बजे अप. तक क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय के उपर्युक्त पते पर है। विधिवत नहीं भरी गई अथवा

अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा विचारणीय नहीं होगा तथा निरस्त कर दिया जायेगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी। 2. सम्पत्ति की गिलामी की तिथि 07.10.2021 को शाखा कार्यालय के पते पर 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप. तक है।

3. निविदा/ मृहरबंद बोली/ प्रस्ताव प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष खोली जायेगी। 4. अचल सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि : 24.09.2021 को 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप. तक है। 5. एतदुद्वारा ऋणधारकों/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि बिक्री के नियमों एवं शर्तों के विवरणों के अनुसार उक्त अचल सम्पत्ति की खरीद के लिये वे इच्छुक क्रेता/ खरीददार को ला सकते हैं। 6. कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को एतद्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व उपर्युक्त राशि जमा करने के लिए सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत 30 दिवसीय बिक्री सूचना दी जाती है जिसमें असफल रहने पर अचल

7. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें निर्धारित निविदा प्रपत्र में वर्णित हैं। निविदा प्रपत्र उक्त अंचल/शाखा कार्यालय में उपलब्ध है। नीलामी में अचल सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम निविदाकार/ बोलीदाता को की जायेगी। प्राधिकत अधिकारी को यदि जरूरी हो, इन्टर से विडिंग की अनमित देने का सम्प्रभ अधिकार है। ऊपर वर्णित सम्पत्ति आरक्षित मल्य से कम मैं

साथ ही उनसे आग्रह है कि निविदा जमा करने से पूर्व अपने स्वयं के हित में उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पित्तयों से संबंधित उपरोक्त तथा अन्य संबंधित विवरणों के विषय में स्वयं जांच-पड़ताल कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। 10. डीएचएफएल उपरोक्त सम्पत्ति पर लम्बित किसी भी प्रकार की देयताओं के लिये उत्तरदायी नहीं है। सम्पत्ति की नीलामी ''जैसा है जहां है आधार'', ''जो भी जैसा है आधार'' तथा ''जो कुछ भी वहां है आधार'' पर की जायेगी 11. डिमांड ड्राफ्ट केवल ''देवन हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड'' के पक्ष में ही वनबाई जायेगी।

12. जो भी लागू हो, यह उत्तरदायित्व नीलामी के क्रेता का होगा की 50 लाख तथा उससे अधिक की मूल्य की अचल सम्पत्ति के अंतरण पर रेजीटेन्ट स्वामी की ओर से कुल बिक्री मूल्य पर 1% की दर से स्रोत पर (डीटीएस) की कटौती करें तथा आय कर अधिनियम की धारा 194 आईए के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकरण में उसे जमा करें।

यहां नीचे वर्णित प्रतिभत परिसम्पत्ति के कब्जे के अनुपालन में भौतिक कब्जे में नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति की जैसा है जहां है आधार, जो भी जैसा है आधार तथा जो कछ भी वहां है आधार पर खरीद के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव आमंत्रित है जिसके विवरण निम्नलिखित हैं:

सम्पत्ति की नीलामी कर दी जाएगी और शेष, यदि कोई हो, ब्याज और लागतों सहित वसूल किया जाएगा। यदि ऋणधारक बिक्री की तिथि से पूर्व देवन हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लि. को देय राशि का पूरी तरह से भुगतान कर देते

9. एतदद्वारा निविदाकार(रों)/ प्रस्तावक(कों)/ संभावित बोलीदाताओं/ क्रेताओं को सचना दी जाती है कि प्रतिभत परिसम्पत्ति की बिक्री अधिभारों तथा सांविधिक प्राधिकरण को देय बकाये, यदि कोई हो, के साथ की गई जाएगी तथा

अधिक विवरणों के लिये उपरोक्त कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।

की ईजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

3. ई-वोटिंग का पात्रता हेत कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 21 सितम्बर, 2021 होगी।

निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। 5. ई-वोटिंग अवधि समाप्त होने के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी सदस्य का ई-मेल पता कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत/अपडेट नहीं है तो कम्पनी के

डीमैट शेयरधारकों हेतु : कृपया अपना ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर अपने सम्बन्धित डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी)

स्थान : नोएडा तिथि : 2 सितम्बर, 2021

प्रबन्ध निदेशक

बोर्ड के आदेशानुसार

पंजीकृत कार्यालयः 5, जैन मंदिर मार्ग (एनेक्स.), कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 टेली: +91 011-23747336 ईमेल: all_cosec@altran.com 15वी एजीएम के लिए सूचना

कोविड-19 महामारी को देखते हुए सामाजिक दूरी का पालन किया जाना है और सामान्य परिपत्र सं

तारीख को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल जानकारी के लिए समझना चाहिए।

एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। वह सदस्य जो वीसी/ओएवीएम

संपर्क करें।

liable to be transferred to the Authority.

दिनांकः 02 सितम्बर, 2021

For SMC Global Securities Limited

E-mail: smc@smcindiaonline.com | Website: www.smcindiaonline.com

E.V.P. (Corporate Affairs) & Company Secretary August 31, 2021 Place: New Delhi

Sd/-(Suman Kumar)

www.readwhere.com

तिथि: 02.09.2021 तिथि : 01 सितंबर, 2021 कम्पनी सचिव स्थानः लखनऊ स्थान : गुरूग्राम सदस्यता सं. A20060